



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

30 श्रावण 1937 (श10)  
(सं0 पटना 945) पटना, शुक्रवार, 21 अगस्त 2015

---

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

निविदा सूचना  
शुद्धि-पत्र  
20 अगस्त 2015

सं0 11/उ0 (नि0 म0)-2-01/2014-2564—1ली0 सितम्बर 2015 से 31 मार्च, 2019 तक पेट (PET) बोतल में मसालेदार देशी शराब का निर्माण कर BSBCL को थोक आपूर्ति करने हेतु दो लिफाफा पद्धति के अंतर्गत निविदा 01.09.2015 से 30.03.2019 तक के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या-2411 दिनांक 05.08.2015 में प्रकाशित निविदा सूचना की कंडिका 3 (iii) में संशोधित करते हुए निम्न रूप से प्रख्यापित किया जाता है :-

निविदादाता द्वारा वेस रेट को ध्यान में रखते हुए 300ml के पैक साईज हेतु अपनी निविदा सीलबन्द दूसरे लिफाफे में रखा जाएगा एवं लिफाफे पर वित्तीय निविदा लिखा रहेगा। 300ml के पैक साईज के लिए प्राप्त निविदा दर के आधार पर ही निविदादाताओं के बीच सफल निविदादाता का चयन किया जाएगा। 200ml एवं 600ml हेतु प्राप्त निविदा दर को निविदा निर्धारण में आकलित नहीं किया जाएगा। 200ml एवं 600ml का निविदत्त दर 300ml हेतु निविदत्त दर का क्रमशः 0.70 एवं 1.93 गुणा मानी जाएगी।

आदेश से,  
नवीन कुमार मिश्र,  
संयुक्त आयुक्त उत्पाद।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 945-571+500-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>